

GURU HAR RAI SCHOOL

Koyla Nagar, Kanpur

CLASS - 7

Subject	HOMEWORK
ENGLISH	<p>1. Working model on tense (Mention the tense, structure and examples, use neat handwriting, proper labelling and colourful decoration) Roll 1 to 5</p> <p>2. Working model on quantifiers. (Mention different quantifiers with examples, use neat handwriting, proper labelling and colourful decoration) Roll 6 to 10</p> <p>✿ Learn PT 1 syllabus thoroughly.</p>
HINDI	<p>निम्न विषयों में से किसी एक पर 120-150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए: मेरा प्रिय त्योहार पुस्तकें हमारी मित्र जल संरक्षण खेलों का महत्व इंटरनेट के लाभ और हानि</p> <p>2. आपने ग्रीष्मकालीन की छुट्टियाँ कैसे बिताईं, इस विषय पर अपने मित्र को एक अनौपचारिक पत्र लिखिए।</p> <p>3. चार्ट / प्रोजेक्ट कार्य - निम्न विषयों में से कोई एक चुनकर चार्ट बनाइए: हिंदी वर्णमाला पर्यावरण बचाओ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक महान हिंदी लेखक</p>
MATHS	<p>1) Look at the phrase "100 minus the sum of 15 and 56." (a) Write this as an arithmetic expression using brackets. (b) Evaluate it.</p> <p>2) Simplify: $100 - (7 \times 9) + 13$</p> <p>3) Bracket Removal: Write $100 - (15 + 56)$ without brackets.</p> <p>4) Compare: Use $>$, $<$ or $=$ $(8 - 3) \times 29$ _____ $(3 - 8) \times 29$</p> <p>5) Aman bought pens for ₹20 and a notebook for ₹65 with a ₹100 note. Write a bracketed expression for the change and calculate it</p> <p>6) Calculate the value of: $(25 + 15 \div 3) \times 2$</p> <p>7) If one of the interior angles is $(3x + 15)$ and the corresponding angle is 75, find the value of x.</p> <p>8) The decimal 27.53 represents.</p> <p>9) The smallest decimal number among 0.02, 0.2 and 0.002</p> <p>10) A fish is 3.2 cm long, and another is 1.8 cm long. What is the difference in their lengths?</p> <p>11) 3 times the sum of 45 and 28, then subtract 72 from it.</p>

	<p>12) Write the expression for 5 more than double of 23.</p> <p>13) A vendor sells 15 apples at ₹12 each and 10 oranges at ₹8 each. He spends ₹50 on transport. Write an expression for his total revenue.</p> <p>14) List all the terms in the expression $(14 - 5 + 9)$</p> <p>15) Use the distributive property to expand $4 \times (3 + 7)$</p> <p>16) Revise complete PT-1 syllabus.</p>
SCIENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Learn the chapters 2 and 3 for PT 1. 2. Make a project on any one of the following topics- <ol style="list-style-type: none"> a) Solar Oven b) Lemon Battery c) Plant Growth in Different Soils d) Density Tower e) Chromatography
SOCIAL STUDIES	<p>Make a rotating 4-sided cardboard model to show four phases of how buying and selling changed over time. Be creative, but make sure to include these core steps:</p> <p>Phase 1 (The Barter System): Draw people swapping items and glue real props (like grains or tiny toys) to the base to show how trading worked before money.</p> <p>Phase 2 (The Age of Coins): Show the metal currency era by pasting and labeling different real or play coins on your model.</p> <p>Phase 3 (Paper Money): Decorate a side for paper currency and neatly stick down fake banknotes of different values.</p> <p>Phase 4 (Modern Digital Money): Show our electronic era by pasting expired plastic cards and drawing digital payment app logos.</p> <p>Ensure your headings are big and bold so anyone spinning your model can easily follow the story from start to finish!</p> <p>Learn all the complete Syllabus of PT- 1 i.e 1, 5, 9 and 11.</p>
COMPUTER	<p>Learn all the work done in notebook and book and do practice of Number system conversion</p>